

UNICITY

यूनिमाटे लेमन जिंजर



कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं - ये ऐसे दिन होते हैं जब आप और अधिक हासिल करते हैं एक स्टाइल के साथ। अन्य दिनों में, आपका मन किसी न किसी उलझन में बना रहता है, और आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो दोनों में इतना अंतर कैसे है? आप हर दिन को एक बेहतर दिन कैसे बना सकते हैं?

यूनिमाटे महान दिनों को नियम बनाने में मदद करता है, अपवाद नहीं।

यर्बा माटे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी पौधे से आता है, जहां सैकड़ों वर्षों से सामुदायिक अनुष्ठानों में इसका सेवन किया जाता रहा है। यर्बा माटे प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर है और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से मानसिक स्पष्टता, सहनशक्ति, भूख नियंत्रण और आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यूनीसिटी यूनिमाटे की यर्बा माटे की पत्तियां एक अनोखी पांच-चरणीय प्रक्रिया से गुजरती हैं - हाथ से चुनना, आग में भूनना, सक्रिय जैविक अणु निष्कर्षण, यर्बा माटे एकाग्रता और शुद्धिकरण। नतीजतन, यूनिमाटे एक गुणवर्धक अर्क है जो येरबा मेट के लाभों को बेहतर बनाता है और इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड (फील गुड एलिमेंट) की मात्रा एक सामान्य कप कॉफी से 10 गुना तक अधिक होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, यूनिमाटे आपके संज्ञानात्मक कार्य और सहनशक्ति को बेहतर बनाएगा और आपको अच्छा महसूस करने में मदद करेगा।

यूनिमाटे चुनें, और अच्छा महसूस करना चुनें।

विशेषताएँ

- उच्च गुणवत्ता, शुद्ध, अति-केंद्रित यर्बा माटे।
- समृद्ध स्रोत
- क्लोरोजेनिक एसिड।
- थियोब्रोमाइन।
- मेट सैपोनिन्स।
- एंटीऑक्सीडेंट।
- सुविधाजनक सिंगल-सर्विंग सैपे।
- शुगर फ्री (सुक्रोज)।

लाभ



एक बेहतर और सुखद अनुभूति प्रदान करने में सहायक*



कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक*




सहनशक्ति और स्टेमिना बनाए रखने में मदद करता है*



तृप्ति को बढ़ावा देता है*



वजन संचालन प्रयासों में सहायक*



शरीर में कीटोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है*

उपयोग

- एक सैशे 500 मिलीलीटर पानी में मिलाएं।
- प्रतिदिन एक बार या इच्छानुसार उपयोग करें।
- गर्म या ठंडे पानी के साथ पियें।



आइडियल फॉर

एंटेप्रेन्योरस, व्यवसायी लोग, सुपर मॉम्स और सुपर डैड्स
यूनिमाटे दोपहर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने, सभी घरेलू कार्यों को पूरा करने, या बच्चों के कल आने वाले प्रोजेक्ट को आसानी से याद रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करता है।

एथलीट
चाहे वर्कआउट करना हो या अपनी पसंदीदा खेल गतिविधि का आनंद लेना हो, यूनिमाटे आपको इन सब में मदद करता है।

कॉलेज के छात्र
यूनिमाटे फोकस और एकाग्रता को बढ़ावा देता है, और यह आपको प्रेरित करता है सफल आदतों को अपनाने और व्यस्त सामाजिक जीवन को बनाए रखने में मदद करता है।

यह ट्राय करें



अपने यूनिमाटे को गर्मागर्म तैयार करें और दालचीनी स्टिक से मिलाएं।



अपने यूनिमाटे में एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल मिला कर इसका प्रयोग करें।



ठंडे, स्वादिष्ट रिचार्ज के लिए बर्फ के साथ यूनिमाटे लेमन जिंजर आजमाएं।

कब इस्तेमाल करें

- वर्कआउट करने से पहले।
- ऊर्जा से भरपूर अपने दिन की शुरुआत करें।
- भोजनकालों के बीच।
- किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, परीक्षा या प्रस्तुति से पहले।
- जब भी आप ब्रेन फ्रॉग या मानसिक थकान से लड़ना चाहते हैं।

सामग्री

हरी यर्बा माटे पत्ती - यर्बा माटे दक्षिण अमेरिका के मध्य क्षेत्रों के मूल निवासी होली पौधे की पत्तियों से आता है। यर्बा माटे का उपयोग सदियों से स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता रहा है। यर्बा माटे कैफीन का एक प्राकृतिक स्रोत है, और इसमें पॉलीफेनोल्स होते हैं, जिनमें उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं।

यर्बा माटे में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं

- क्लोरोजेनिक एसिड** - क्लोरोजेनिक एसिड पौधों और बीजों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल यौगिक हैं, जैसे यर्बा माटे, ग्रीन कॉफी बीन्स और चाय। क्लोरोजेनिक एसिड का शरीर पर महत्वपूर्ण जैविक प्रभाव होता है, जिसमें स्वस्थ मस्तिष्क संचालन में सहायता प्रदान करना और मूड को बेहतर बनाना शामिल हैं।
- माटे सैपोनिन** - माटे सैपोनिन मोलेक्यूलर्स का एक वर्ग है जो यर्बा माटे पौधे के लिए विशिष्ट है। माटे सैपोनिन मेटाबोलिक लचीलेपन का समर्थन करते हैं।
- थियोब्रोमाइन** - थियोब्रोमाइन एक मॉलिक्यूल है जिसमें कैफीन के समान संरचना होती है। संभवतः इसे उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट में पाए जाने वाले मूड-बूस्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है। थियोब्रोमाइन शांति की भावनाओं को बढ़ावा देता है, ध्यान केंद्रित करने में सुधार करता है और मानसिक थकान को कम करता है।

Nutritional Information (approx.)

Serving Size: 1 Sachet (6.30g)

Servings Per Container: 30

	Per 100g	Per serve (6.30g)	% RDA as per ICMR (per serve)
Energy*	285.70 kcal	18.00 kcal	0.90
Protein	3.65 g	0.23 g	0.50
Carbohydrate	66.98 g	4.22 g	#
Total Sugars	16.19 g	1.02 g	#
Added Sugars*	0.00 g	0.00 g	0.00
Dietary Fiber	1.59 g	0.10 g	0.40
Soluble Fiber	1.43 g	0.09 g	#
Insoluble Fiber	0.00 g	0.00 g	#
Total Fat*	0.00 g	0.00 g	0.00
Saturated Fat*	0.00 g	0.00 g	0.00
Trans Fat*	0.00 g	0.00 g	0.00
Cholesterol	0.00 mg	0.00 mg	#
Sodium*	189.21 mg	11.92 mg	0.60
Green Mate Leaf Powder Extract	47619.05 mg	3000.00 mg	#

%RDA not expressed

%RDA established as per ICMR, 2020 for sedentary work women.

*%RDA calculated based on 2000 kcal diet for adults.

OTHER INGREDIENTS: Ilex paraguariensis (Green Mate leaf Powder Extract), Resistant Maltodextrin, Acidity Regulator {Citric Acid (INS 330)}, Thickener {Sodium Gluconate (INS 576)}, Nature Identical Flavor-Lemon, Nature Identical Flavor-Ginger, Nature Identical Flavor-Bitter Blocker, Sweetener {Steviol glycosides (INS 960), Sucralose (INS 955)}.

यूनिमाटे के पीछे का विज्ञान

यूनीसिटी की मूल पांच-चरणीय प्रक्रिया के कारण यूनीमाटे अद्वितीय रूप से शक्तिशाली है: हाथ से चुनना, आग में भूनना, सक्रिय जैविक अणु निष्कर्षण, यर्बा माटे एकाग्रता और शुद्धिकरण। परिणामस्वरूप तैयार होता है एक यर्बा माटे पेय जिसमें अन्य व्यावसायिक रूप से उपलब्ध यर्बा माटे पेय की तुलना में 375 गुना अधिक क्लोरोजेनिक एसिड होता है।



1 हाथ से चुनना




2 आग में भूनना



3 सक्रिय जैविक अणु निष्कर्षण



4 यर्बा माटे एकाग्रता



5 शुद्धिकरण

UNICITY

यूनिमाटे

एफ ए क्यूस



यूनिमाटे की एक सर्विंग में कितना कैफीन होता है?

प्रोडक्ट का कैफीन सीमा मापने के लिए परीक्षण किया गया है, और इसमें एक कप प्रीमियम कॉफी जितनी कैफीन है। हालाँकि, प्राकृतिक अवयवों में कुछ भिन्नता हो सकती है, कैफीन की मात्रा मानकीकृत स्टैंडर्डाइज़ नहीं है।

क्या मैं यूनिमाटे को यूनिसिटी प्रीमियम माचा के साथ ले सकता हूँ?

हाँ, आप एक ही समय में दोनों प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स में कैफीन होता है, इसलिए कैफीन के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को सलाह दी जाएगी कि वे एक साथ या सोने से पहले इनको न पियें।

क्या यह प्रोडक्ट कीटोजेनिक या अन्य लो कार्ब आहार के अनुकूल है?

यूनिमाटे कीटो या अन्य कम कार्ब आहार के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह शरीर को केटोन्स के उत्पादन में अधिक कुशल बनाने में मदद करता है, जो कि शरीर के लिए वसा से त्वरित प्राप्त किया जाने वाला ऊर्जा स्रोत है। यूनिमाटे उस थकी हुई, खाली, उदासीन भावना को रोकता है जो पर्याप्त भोजन न करने से आती है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा के लिए संग्रहित फैट का उपयोग करने में मदद करता है।

यह प्रोडक्ट यूनिसिटी प्रीमियम माचा से किस प्रकार भिन्न है?

दोनों प्रोडक्ट्स उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा के प्रकार में भिन्न हैं: यूनिसिटी प्रीमियम माचा शारीरिक ऊर्जा को बेहतर बनाने में सहायक है, और यूनिमाटे मानसिक को बेहतर बनाने में सहायक है। माचा ऊर्जा (एटीपी) उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक सेलुलर ऊर्जा प्राप्त होती है। यूनीमेट एक बेहतर मूड, खुशहाली की भावना को बढ़ावा देता है और कुछ भी हासिल कर सकने कि भावना को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यूनिमाटे कीटोन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है ताकि कीटोन ऊर्जा प्रदान कर सके।

माटे सैपोनिन क्या हैं?

माटे सैपोनिन मोलेक्युल्स का एक वर्ग है जो यर्बा माटे पौधे के लिए विशिष्ट है। माटे सैपोनिन का महत्वपूर्ण जैविक प्रभाव विशेष रूप से वजन घटाने और फैट बर्निंग के क्षेत्र में देखा गया है।

गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं कर सकतीं? क्या बच्चे यूनिमाटे का उपयोग कर सकते हैं?

यूनिसिटी बच्चों, गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर उत्पादों का परीक्षण नहीं करती है। इसलिए, यूनिसिटी इन जनसांख्यिकी के लिए उपयोग की अनुशंसा नहीं कर सकती। यह ध्यान रखना भी अच्छा है कि यूनिमाटे में प्राकृतिक कैफीन होता है, और कई स्रोतों से संकेत मिलता है कि कैफीन गर्भवती महिलाओं या छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है।

क्लोरोजेनिक एसिड क्या हैं?

क्लोरोजेनिक एसिड पौधों और बीजों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल यौगिकों का एक परिवार है, जैसे यर्बा माटे, हरी कॉफी बीन्स और चाय। उनके महत्वपूर्ण जैविक प्रभाव हैं जिनमें शामिल है, स्वस्थ ब्लड प्रेशर का समर्थन करना, स्वस्थ मस्तिष्क कार्य का समर्थन करना और बेहतर मूड को बढ़ावा देना शामिल है। यूनिमाटे में अन्य यर्बा माटे पेय की तुलना में 375 गुना अधिक क्लोरोजेनिक एसिड होता है।

थियोब्रोमाइन क्या है?

थियोब्रोमाइन एक मॉलिक्यूल है जो संरचना में कैफीन के समान है। संभवतः इसे उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट में पाए जाने वाले मूड-बूस्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है। थियोब्रोमाइन शांति की भावनाओं को बढ़ावा देता है, ध्यान केंद्रित करने में सुधार करता है और मानसिक थकान को कम करता है। यूनिमाटे में उच्च गुणवत्ता वाली डार्क चॉकलेट की तुलना में तीन गुना अधिक थियोब्रोमाइन होता है।